



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 वैशाख 1941 (श0)  
(सं0 पटना 552) पटना, सोमवार, 22 अप्रील 2019

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 अप्रील 2019

सं0 एम-1-010/2019-29— लोक सभा का आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के आलोक में 7—झंझारपुर, 8—सुपौल, 9—अररिया, 13—मधेपुरा एवं 25—खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।




बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
प्रवीण कुमार गुप्ता,  
संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए,]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

07-झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	गुलाब यादव		ग्राम+पो0-गंगापुर, भाया-झंझारपुर, मधुबनी, बिहार, 847403	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
2	राज कुमार सिंह		ग्राम-बेलही (द०), पो0-बेला, थाना-जयनगर, जिला- मधुबनी, पिन- 847226	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	रामप्रित मंडल		ग्राम-दुर्गीपट्टी पो0-हुदरा, भाया+थाना- खुटौना, जिला- मधुबनी	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
4	गंगा प्रसाद यादव		ग्राम+पो0-नरार, थाना-कलुआही, जिला- मधुबनी, बिहार, पिन- 847226	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मेज
5	छेदी राम		ग्राम- रघुबीर चक, पो0-रामपट्टी, थाना- राजनगर, मधुबनी	भारतीय मित्र पार्टी	खाने से भरी थाली
6	देवेन्द्र प्रसाद यादव		ग्राम+डाकघर-सिसवा-बरही, थाना-फुलपरास, जिला- मधुबनी (बिहार)	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	गन्ना किसान
7	प्रभात प्रसाद		ग्राम-ठाढ़ी (बोनक डीह), पोस्ट-ठाढ़ी, थाना-अंधराठाढ़ी, जिला- मधुबनी, पिन- 847401	सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी	छड़ी
8	रत्नेश्वर झा		ग्राम+पो0-परजुआर, थाना-अरेड़, जिला- मधुबनी	आदर्श मिथिला पार्टी	टी रिमोट .वी.
9	रमानंद ठाकुर		ग्राम-गोसाँईटोल, पत्रालय-केवलपट्टी, जिला- मधुबनी	शिवसेना	मोतियों का हार

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
10	रमेश कुमार कामत		ग्राम-मेहसे, पोस्ट+थाना-लौकहा, जिला- मधुबनी, पिन- 847421	आम अधिकार मोर्चा	चपाती रोलर
11	लक्ष्मण प्रसाद यादव		ग्राम+पो0-ब्रह्मपुर, थाना-फुलपरास, जिला- मधुबनी (बिहार)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	सिलाई की मशीन
12	सुरेन्द्र प्रसाद सुमन		ग्राम+पोस्ट-पथराही, थाना-लदनियाँ, जिला- मधुबनी, राज्य-बिहार, पिन कोड- 847227	ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
13	ओम प्रकाश पोद्दार		ग्राम+पो0-झंझारपुर बाजार, थाना-झंझारपुर, जिला- मधुबनी	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
14	गणपति झा		ग्राम+पो0-अंधराठाढ़ी, थाना-अंधराठाढ़ी, जिला- मधुबनी पिन- 847401	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
15	बबलू गुप्ता		ग्राम-बेलही (द०) पो0-बेला, थाना-जयनगर, जिला- मधुबनी (बिहार) पिन- 847226	निर्दलीय	गैस का चूल्हा
16	विपीन कुमार सिंहवैत		ग्राम-पैता, पो0-ब्रह्मपुर, थाना-फुलपरास, जिला- मधुबनी, पिन- 847409	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
17	संजय भारतीय		ग्राम-गढ़िया, पो0-भरफोड़ी, भाया-नरहिया, जिला- मधुबनी	निर्दलीय	चाबी

स्थान : मधुबनी।  
तारीख : 09.04.2019


सुनील कुमार,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
07-झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।


FORM 7A



[See rule 10 (1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

Election to the House of the People from the 07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	* Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.</b>					
1	GULAB YADAV		VILL+P.O.- GANGAPUR, VIA- JHANJHARPUR, MADHUBANI, BIHAR- 847403	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
2	RAJ KUMAR SINGH		VILL.- BELHI (S), P.O.- BELA, P.S.- JAYNAGAR, DISTRICT- MADHUBANI, PIN- 847226	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	RAMPRIT MANDAL		VILL- DURGIPATTI, P.O.- HUDRA, VIA+P.S.- KHUTAUNA, DISTRICT- MADHUBANI	Janata Dal (United)	Arrow
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties.</b>					
4	GANGA PRASAD YADAV		VILL.+P.O.- NARAR, P.S.- KALUAHI, DISTRICT- MADHUBANI, BIHAR, PIN- 847226	Peoples Party of India (Democratic)	Table
5	CHHEDI RAM		VILL.- RAGHUBIR CHAK, P.O.- RAMPATTI, P.S.- RAJNAGAR, MADHUBANI	Bhartiya Mitra Party	Plate Containing Food
6	DEVENDRA PRASAD YADAV		VILL.+P.O.- SISWA-BARAH, P.S.- PHULPARAS, DISTRICT- MADHUBANI (BIHAR)	Samajwadi Janata Dal Democratic	Ganna Kisan
7	PRABHAT PRASAD		VILL.- THADHI (BONAK DIH), P.O.- THADHI, P.S.- ANDHRATHADHI, DISTRICT- MADHUBANI, PIN- 847401	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Walking Stick

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	* Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
8	RATNESHWAR JHA		VILL.+P.O.- PARJUAAR, P.S.- ARER, DISTRICT- MADHUBANI	Aadarsh Mithila Party	T.V. Remote
9	RAMANAND THAKUR		VILL.- GOSAITOL, P.O.- KEWALPATTI, DISTRICT- MADHUBANI	Shiv Sena	Bead Necklace
10	RAMESH KUMAR KAMAT		VILL.- MEHASE, P.O.+P.S.- LAUKAHA, DISTRICT- MADHUBANI, 847421	Aam Adhikar Morcha	Chapati Roller
11	LAKSHMAN PRASAD YADAV		VILL.+P.O.- BRAHAMPUR, P.S.- PHULPARAS, DISTRICT- MADHUBANI (BIHAR)	Republican Party of India (A)	Sewing Machine
12	SURENDRA PRASAD SUMAN		VILL.+P.O.- PATHRAHI, P.S.- LADANIA DISTRICT- MADHUBANI, STATE- BIHAR PIN CODE- 847227	All India Forward Bloc	Lion
<b>(iii) Other candidates.</b>					
13	OM PRAKASH PODDAR		VILL.+P.O.- JHANJHARPUR BAZAR, P.S.- JHANJHARPUR, DISTRICT- MADHUBANI	INDEPENDENT	Helicopter
14	GANPATI JHA		VILL.+P.O.- ANDHRATHADHI, P.S.- ANDHRATHADHI, DISTRICT- MADHUBANI, PIN- 847401	INDEPENDENT	Auto-Rickshaw
15	BABLU GUPTA		VILL.- BELHI (S), P.O.- BELA, P.S.- JAYNAGAR, DISTRICT- MADHUBANI (BIHAR) PIN- 847226	INDEPENDENT	Gas Stove

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	* Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
16	BIPEEN KUMAR SINGHWAIT		VILL.- PAINTA, P.O.- BRAHMPUR, P.S.- PHULPARAS, DISTRICT- MADHUBANI, PIN- 847409	INDEPENDENT	Gas Cylinder
17	SANJAY BHARTIA		VILL- GADHIYA, P.O.- BHARPHORI, VIA- NARAHIA, DISTRICT- MADHUBANI	INDEPENDENT	Key

Place : Madhubani  
Date : 09.04.2019











Sunil Kumar,  
Assistant Returning Officer,  
07-Jhanjharpur Parliamentary constituency.

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

08-सुपौल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	किरण देवी		मधेपुरा वार्ड नं०-26, भिरखी, पोस्ट+थाना+ जिला-मधेपुरा	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
2	दिलेश्वर कामैत		ग्राम-लक्ष्मीनिया, पोस्ट-महोलिया, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल,	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
3	रंजीत रंजन		रंजन निकेतन, कोर्ट स्टेशन एरिया, पूर्णिया (बिहार)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
4	मो० अबुल कलाम आजाद		सुपौल वार्ड नं०-19 भेलाही, पोस्ट+ थाना+जिला-सुपौल	जय हिन्द पार्टी	कैची
5	कृष्ण देव मंडल		ग्राम-सोनापुर, पोस्ट-डगमारा, थाना-कुनौली, जिला-सुपौल	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	टैक्टर चलाता किसान
6	दीप नारायण मंडल		ग्राम+पोस्ट-कुमियाही, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल	शिवसेना	चाबी
7	नवीन कुमार सिंह		ग्राम-छातापुर, पोस्ट-सुरपतगंज, थाना-छातापुर, जिला-सुपौल	बिहार लोक निर्माण दल	बक्सा
8	प्रमोद कुमार निराला		ग्राम-टेकाबीघा, पोस्ट-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना।	वंचित समाज पार्टी	टीलर
9	भीम कुमार गुप्ता		ग्राम+पोस्ट-मधेली बाजार, पोस्ट-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी	चारपाई
10	संजय सरदार		ग्राम+पोस्ट-गोनहा, थाना+प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल	लोक सेवा दल	हेलमेट



क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
11	संजीत कुमार चौधरी		ग्राम+पोस्ट+थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	हैलीकॉप्टर
12	सत्य नारायण मेहता		सहरसा वार्ड नं०-14 शिवपुरी, पोस्ट+भाया+जिला-सहरसा, (बिहार)	जन अधिकार पार्टी	डोली
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
13	मो० अफरोज आलम		ग्राम-टिकुलिया, पोस्ट-विशनपुर बाजार, थाना-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा	निर्दलीय	रोड रोलर
14	आनन्द पाठक		ग्राम+पोस्ट-करिहो, थाना+जिला-सुपौल	निर्दलीय	ट्रक
15	दिनेश प्रसाद यादव		ग्राम+पोस्ट-नौआवाखर, भाया-थरविट्टा, जिला-सुपौल	निर्दलीय	छड़ी
16	बिनोद कुमार साहु		ग्राम-बाईसी, पोस्ट-डुमरी, थाना-करजाईन बाजार, जिला-सुपौल (बिहार)	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
17	राजेश कुमार पिता-जवाहर लाल दास		झखराही वार्ड नं०-26, नगर परिषद्, सुपौल पोस्ट+थाना+जिला-सुपौल (बिहार)	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
18	राजेश कुमार पिता-युगेश्वर साह		ग्राम-सखुआ, पोस्ट-बभनगामा, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल	निर्दलीय	गन्ना किसान
19	संदीप कुमार सिंह		ग्राम+पोस्ट-रतौली, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	निर्दलीय	माईक
20	सुधाकर झा		ग्राम+पोस्ट-सखुआ, अंचल+थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	निर्दलीय	लैटर बाक्स

स्थान: सुपौल  
तारीख: 08.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,  
रिटर्निंग ऑफिसर,  
08-सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।



FORM 7A





[See Rule 10(I)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 08-Supaul Parliamentary Constituency.

SL. NO.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(I) Candidates Of Recognised National And State Political Parties.					
1	Kiran Devi		Madhepura ward No. 26, Bhirkhi, PO+PS+Dist. Madhepura	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Dileshwar Kamait		Vill-Lakshminiya, PO- maholiya, PS- Triveniganj, dist- Supaul	Janata Dal (United)	Arrow
3	Ranjeet Ranjan		Ranjan Niketan, Court Station Area, Purnea (Bihar)	Indian National Congress	Hand
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Md. Abul Kalam Azad		Supaul ward no. 19 bhelahi PO+PS+District- Supaul	Jai Hind Party	Scissors
5	Krishan dev Mandal		Vill- Sonapur, PO- Dagmara, PS- Kunauli, District- Supaul	Rashtravadi Janata Party	Tractor Chalata Kisan
6	Dip Narayan Mandal		Vill+ps- Kumiyahi, Ps- Triveniganj, District-Supaul	Shiv Sena	Key
7	Naveen Kumar Singh		Vill-Chhatapur, po- Surpatganj, ps- Chhatapur, District- Supaul	Bihar Lok Nirman Dal	Box
8	Pramod Kumar Nirala		Vill- Tekavigha po- lakhanpura, PS- bakhtiyarpur, District-Patna	Vanchit Samaj Party	Tiller

SL. NO.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
9	Bhim Kumar Gupta		Vill+PO-Maghaili Bazar, PS-Shankarpur, District-Madhepura	Jammu & Kashmir National Panthers Party	Cot
10	Sanjay Sardar		Vill+Po-Gonaha PS+Block-Triveniganj, District-Supaul	Lok Sewa Dal	Helmet
11	Sanjeet Kumar Choudhary		Vill+Post+Ps-Pipra, District-Supaul (Bihar)	Aam Janta Party Rashtriya	Helicopter
12	Satya Narayan Mehta		Saharsa ward No. 14 Shivpuri PO+Bhaya+District-Saharsa (Bihar)	Jan Adhikar Party	Dolli
(iii) Other candidates.					
13	Md. Afroj Alam		Vill-Tikuliya, po-vishanpur bazar, PS-Kumarkhand, District-Madhepura	Independent	Road Roller
14	Anand Pathak		Vill+po- Kariho, ps+district-Supaul	Independent	Truck
15	Dinesh Prasad Yadav		Vill+PO-Nauawakhar, PS-Kisanpur, District-Supaul	Independent	Walking Stick
16	Binod Kumar Sahu		Vill-baesi, Po-Dumari, Ps-Karjain Bazar, District-Supaul (Bihar)	Independent	Gas Cylinder

SL. NO.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
17	Rajesh Kumar S/O- Jawahar Lal Das		Jhakrahi Ward no. 26 (Nagar Parishad, Supaul) PO+PS+ District- Supaul (Bihar)	Independent	Auto-Rickshaw
18	Rajesh Kumar S/O- Yugeshwar Sah		Vill- Sakhua Po- babhangama ps- Triveniganj, District- Supaul	Independent	Ganna Kisan
19	Sandip Kumar Singh		Vill+po-Ratauli, PS- Pipra, District-Supaul	Independent	Mike
20	Sudhakar Jha		Vill+post-Sakhua, Anchal+ PS-Pipra, District-Supaul	Independent	Letter Box

Place: Supaul  
Date: 08.04.2019

Sd/-Illegible,  
**Returning Officer.**  
**08-Supaul Parliamentary Constituency.**

प्ररूप 7 'क'  
(नियम 10 (1) देखिए)  
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची  
09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए आम निर्वाचन, 2019

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	प्रदीप कुमार सिंह		ओम नगर, वार्ड नं०-8, पो०+थाना+जिला-अररिया	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2	राम नारायण भारती		शिवपुरी, वार्ड सं०-9, थाना व जिला-अररिया	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	सरफराज आलम		ग्राम-सिसौना, धोबी टोला, थाना-जोकीहाट, पोस्ट-जोकीहाट, जिला-अररिया, 854329 (बिहार)	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)।</b>					
4	ताराचन्द पासवान		ओमनगर, वार्ड नं०-8, अररिया	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई
5	सुदामा सिंह		खजुरबाड़ी, मेंहदीपुर, कुर्साकांटा, अररिया	बिहार लोक निर्माण दल	बक्सा
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
6	मो० मतीन		झौवा बटुरबाड़ी, वार्ड नं०-06, पो०-पटेगना, थाना-ताराबाड़ी, जिला-अररिया	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	मो० मिनहाज आलम		ग्राम—काशीबाड़ी, थाना—जोकीहाट, जिला—अररिया	निर्दलीय	बल्ला
8	मुकेश सिंह		गोपालपुर परिहारी, थाना—रानीगंज, जिला—अररिया	निर्दलीय	अलमारी
9	मो० मूबिनुल हक		ग्राम—दुर्गापुर, भुना, मजगामा	निर्दलीय	ब्लैक बोर्ड
10	रामा नन्द ऋषिदेव		आर०टी०मोहन, पिन कोड—854311	निर्दलीय	ट्रैक्टर चलाता किसान
11	अ० वाहिद खान		पथराहा, वार्ड नं०—4	निर्दलीय	सेब
12	शाहीन प्रवीन		ग्रा०+पो०—सोनापुर, नरपतगंज, अररिया	निर्दलीय	ऑटो—रिक्शा

स्थान: अररिया

तारीख: 09.04.2019








(ह०) अस्पष्ट,  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,  
09—अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।



## FORM 7 A.

(See rule 10 (1))

## LIST OF CONTESTING CANDIDATES

## General Election to the House of the People from the 09-Araria Parliamentary Constituency

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognized National and State Political Parties</b>					
1	PRADEEP KUMAR SINGH		OM NAGAR, WARD NO-8, PS+PO+DIST-ARARIA	BHARATIYA JANATA PARTY	LOTUS
2	RAM NRAYAN BHARTI		SHIVPURI, WARD NO-9, PS+DIST-ARARIA	BAHUJAN SAMAJ PARTY	ELEPHANT
3	SARFARAZ ALAM		VILL- SISAUNA, DHOBİ TOLA, P.S-JOKIHAT, PO-JOKIHAT, DIST-ARARIA-854329 (BIHAR)	RASHTRIYA JANATA DAL	HURRICANE LAMP
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognized National and State Political Parties)</b>					
4	TARACHAN D PASWAN		OM NAGAR, WARD NO-8, ARARIA	BAHUJAN MUKTI PARTY	COT
5	SUDAMA SINGH		KHAJURBARI, MAHENDIPUR, KURSAKANTA, ARARIA	BIHAR LOK NIRMAN DAL	BOX
<b>(iii) Other candidates.</b>					
6	MD. MATIN		JHAUWA BATURBARI, WARD NO-6, PO PATEGNA, THANA-TARABARI, DIST-ARARIA	INDEPENDENT	AIR CONDITIONER
7	MD. MINHAZ ALAM		VILL-KASHIBARI, PS-JOKIHAT, DIST-ARARIA	INDEPENDENT	BAT

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
8	MUKESH SINGH		GOPALPUR PARIHARI, PS- RANIGANJ, DIST-ARARIA	INDEPENDENT	ALMIRAH
9	MD. MOBINUL HAQUE		VILL- DURGAPUR BHUNA, MAJGAMA	INDEPENDENT	BLACK BOARD
10	RAMA NAND RISHIDEO		R.T. MOHAN, PIN CODE-854311	INDEPENDENT	TRACTOR CHALATA KISAN
11	ABDUL WAHID KHAN		PATHRAHA, WARD NO.-4	INDEPENDENT	APPLE
12	SHAHIN PRAVIN		VILL+POST- SONAPUR, NARPATGANJ, ARARIA	INDEPENDENT	AUTO RICKSHAW

Place Araria

Date: 09.04.2019

Sd/-Illegible,  
Assistant Returning Officer,  
09-Araria Parliamentary constituency.



[प्ररूप 7क]

(नियम 10(1) देखिए)

निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची

13- मधेपुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
* मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	दिनेश चन्द्र यादव		पिता- रामधारी यादव, ग्राम+पो0- ईटहरी, थाना - सलखुआ, जिला - सहरसा	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2	शरद यादव		पिता - नंद किशोर यादव, म0सं0- 47, वार्ड नं0- 19, एन0एच0- 107 मधेपुरा, जिला- मधेपुरा, बिहार, पिन-852113	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
* रजिष्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों से भिन्न)					
3	अनिल भारती		पिता-रामदेव प्रसाद, ए-43 सुखवीर नगर, कराला, नई दिल्ली, पिन-110081	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	ट्रैक्टर चलाता किसान
4	उमाशंकर		पिता- महंगू सहनी, ग्राम- छाजन विशनपुर, पो0- छाजन हरिशंकर, थाना - कुढनी, जिला- मुजफ्फरपुर, पिन-844127	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
5	मनोज कुमार मंडल		पिता- सरयुग मंडल, ग्राम- चेचरियापीर, आदर्शनगर, वार्ड नं0- 15, पो0+थाना- कहलगॉव, जिला- भागलपुर, बिहार, पिन-813203	आम अधिकार मोर्चा	चपाती रोलर
6	राजीव कुमार यादव		पिता- नारायण यादव, पोस्टल पार्क, जवाहर कॉलोनी, रोड नं0 - 1, फुलवाडी सरीफ, पटना, पिन-800001	बलीराजा पार्टी	खाने से भरी थाली
7	राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव		पिता- चन्द्र नारायण यादव, रंजन निकेतन, कोर्ट स्टेशन एरिया, थाना-कै0 हाट, जिला- पूर्णियाँ	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	हाकी और बाल

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8	सुरेश कुमार भारती		पिता – अर्जुन प्रसाद यादव, नवटोलिया, वार्ड0नं0-1 नगर परिषद, मधेपुरा, थाना+जिला- मधेपुरा, पिन-852113	असली देशी पार्टी	बोतल
* अन्य अभ्यर्थी					
9	मौ0 अरशद हुसैन		पिता- मौलाना अख्तर हुसैन, ग्राम – नवहट्टा, पो0 – नवहट्टा, थाना- नवहट्टा, जिला – सहरसा	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर
10	जयकान्त यादव		पिता- झकस यादव, वार्ड नं0- 19, शास्त्रीनगर, मधेपुरा, जिला- मधेपुरा, बिहार	निर्दलीय	बल्ला
11	राजो साह		पिता-अचमीत साह, ग्राम-रघुनाथपुर, पो0- अजगैवा, थाना- सौरबाजार, जिला – सहरसा, पिन-852221	निर्दलीय	कप और प्लेट
12	विनय कुमार मिश्र		पिता – नागेन्द्र मिश्र, घर+पो0- नेहालपट्टी, माणिकपुर, थाना+जिला- मधेपुरा	निर्दलीय	अलमारी
13	सुमन कुमार झा		पिता- अमरेन्द्र झा, जानकी पूरम, थाना – जानकी विहार, मकान नं0- 645A/817 (899), जिला – लखनऊ, उत्तर प्रदेश	निर्दलीय	नारियल फार्म

स्थान : मधेपुरा

दिनांक : 08/04/2019

(ह०) अस्पष्ट,  
निर्वाची पदाधिकारी,  
13- मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

[FORM 7A]

[See rule 10(1)]

## LIST OF CONTESTING CANDIDATES

*Election to the House of the People from the 13- Madhepura Parliamentary constituency.*

Sl. No.	Name of Candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties					
1	Dinesh Chandra Yadav		S/O Ramdhari Yadav Vill+PO.- Itahari, Thana – Salkhua, District.- Saharsa	Janata Dal (United)	Arrow
2	Sharad Yadav		S/O Nand Kishore Yadav, House No.-47, W.No.-19, NH-107 Madhepura, Distt.- Madhepura, Bihar, Pin- 852113	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
3	Anil Bharti		S/O-Ramdev Prasad, A-43, Sukhveer Nagar, Karala, New Delhi, Pin-110081	Rashtravadi Janata Party	Tractor Chalata Kisan
4	Umashankar		S/O Mahgu Sahni, Vill.- Chhajan Bishanupr, PO.- Chhajan Harishankar, PS.- Khudhni, Distt.- Muzaffarpur, Pin-844127	Bahujan Mukti Party	Cot
5	Manoj Kumar Mandal		S/o Saryug Mandal, Vill.- Chechariyapir, Aadarshnagar, W.No.- 15, P.O+P.S- Kahalgoan, Distt.- Bhagalpur, Bihar, Pin- 813203	Aam Adhikar Morcha	Chapati Roller
6	Rajiv Kumar Yadav		S/O Narayan Yadav, Postal Park, Jawahar Colony, Road No.- 1, Fulwarisarif, Patna, Pin-800001	Baliraja Party	Plate Containing Food

Sl. No.	Name of Candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
7	Rajesh Ranjan @Pappu Yadav		S/O Chandra Narayan Yadav, Ranjan Niketan, Court Station Area, P.S- K. Haat, District.- Purnea	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Hockey and Ball
8	Suresh Kumar Bharti		S/O – Arjun Prasad Yadav Navtoliya, ward No. 01, Nagar Parishad, Madhepura, P.S+Dist- Madhepura, Pin- 852113	Asli Deshi Party	Bottle
(iii) Other Candidates					
9	Md.Arshad Husain		S/O Maulana Akhtar Hussain, Vill.- Nauhatta, PO.- Nauhatta, PS.- Nauhatta, Distt.- Saharsa	Independent	Air Conditioner
10	Jaykant Yadav		S/o Jhakas Yadav, Ward No.- 19, Shashtri Nagar, Madhepura, Distt.- Madhepura, Bihar	Independent	Bat
11	Rajo Sah		S/O- Achamit Sah, Vill-Raghunathpur, PO.- Ajgaiwa, PS.- Sour Bazar, Distt.- Saharsa, Pin-852221	Independent	Cup & Saucer
12	Vinay Kumar Mishra		S/O Nagendra Mishra, Vill.+Po.- Nehalpatti Manikpur, PS.+Distt.- Madhepura	Independent	Almirah
13	Suman Kumar Jha		S/O Amrendra Jha, Janki puram, Thana – Janki Vihar, House No.- 645A/817 (899), Distt.- Lucknow, Uttar Pradesh	Independent	Coconut Farm

Place: Madhepura

Date : 08/04/2019

Sd/-Illegible,  
Returning Officer,  
13- Madhepura Parliamentary Constituency.

## प्ररूप-7क






। नियम 10 (1) देखिए।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

25-खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1	चौधरी महबूब अली कैसर		ग्राम+पोस्ट-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा	लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला
2	रमाकांत चौधरी		ग्राम-बेनहर, पोस्ट-सोनमनकी, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
3	उपेन्द्र सहनी		ग्राम-पकरी, पोस्ट-रेवासी, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	फूलगोभी
4	उमेश चन्द्र भारती		ग्राम-कानूटोला, पोस्ट सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा	आदर्श मिथिला पार्टी	हैलीकॉप्टर
5	तेज बहादुर सिंह		ग्राम+पोस्ट-सोण्डीहा, जिला-खगड़िया	प्राउटिस्ट सर्व समाज	गुब्बारा
6	धीरेन्द्र चौधरी		ग्राम- रंगीनियाँ, पो0- अलानी, जिला- सहरसा	आम अधिकार मोर्चा	चपाती रोलर
7	मधुवाला देवी		सदर अस्पताल रोड उत्तरी हाजीपुर, वार्ड नं0-16, खगड़िया	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	कैमरा

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8	मुकेश सहनी		ग्राम+पो0—अफजला बिरौल जिला—दरभंगा	विकासशील इंसान पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
9	मोनी कुमार		ग्राम— मानसी अरैया, पो0—मानसी, थाना— मानसी, जिला— खगड़िया	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई
10	विनय कुमार वरुण		ग्राम—गौछारी, पोस्ट—गोपालपुर, जिला—खगड़िया	जनहित किसान पार्टी	ट्रैक्टर चलाता किसान
11	संदीप कुमार साकेत		ग्राम+पोस्ट+थाना—महिषी जिला—सहरसा	शिवसेना	मोतियों का हार
12	सुनील यादव		बटराहा रेलवे कॉलोनी, थाना व पोस्ट—सहरसा, जिला—सहरसा	गरीब जनशक्ति पार्टी	उपहार
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
13	कुन्दन कुमार		ग्राम+पोस्ट—वैसा, थाना—परबत्ता, जिला—खगड़िया	निर्दलीय	बेबी वॉकर
14	नागेन्द्र सिंह त्यागी		ग्राम— कन्हौली, पो0— फुलवड़िया, थाना— गोगरी, जिला— खगड़िया	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
15	परमानंद सिंह		ग्राम—फतेहपुर, पोस्ट—जमालपुर गोगरी, जिला—खगड़िया	निर्दलीय	चूड़ियाँ

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
16	प्रियदर्शी दिनकर		ग्राम+पोस्ट-दीनाचकला, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
17	बंदन कुमार सिंह		ग्राम+पो0-सरौजा थाना+अंचल- सिमरीबख्तियारपुर जिला-सहरसा	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर
18	शिव नारायण सिंह		ग्राम+पो0-बांध चातरघाट, थाना- अलौली, जिला-खगड़िया	निर्दलीय	सेब
19	शोभा देवी		ग्राम+पोस्ट-भदास दक्षिणी, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया	निर्दलीय	अलमारी
20	संग्राम कुमार सदा		ग्राम+पोस्ट-बछौता, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी

स्थान : खगड़िया।

तारीख : 08.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,  
रिटर्निंग आफिसर,  
25 खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।









**FORM-7A**





[See rule 10(I)]


**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

**Election to the House of the People from the 25-Khagaria Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised National and State Political Parties</b>					
1	Choudhary Mehboob Ali Kaiser		At+Post-Simri Bakhtiyarpur Distt-Saharsa	Lok Jan Shakti Party	Bungalow
2	Ramakant Chaudhari		At-Banher, Post-Sonmankhi, P.S-Morkahi, Distt-Khagaria	Bahujan Samaj Party	Elephant
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognized National and State Political Parties)</b>					
3	Upendra Sahani		At-Pakari, Post-Revasi, P.S-Riga. Distt-Sitamadhi	Rashtriya Jansambhavna Party	Cauliflower
4	Umesh Chandra Bharti		At-Kanutola, Post-Simri Bakhtiyarpur, Distt-Saharsa	Aadarsh Mithila Party	Helicopter
5	Tej Bahadur Singh		At+Post-Sondiha, Distt-Khagaria	Proutist Sarva Samaj	Balloon
6	Dhirendra Chaudhary		At- Ranginiya, Po-Alani, Dist.- Saharsa	Aam Adhikar Morcha	Chapati Roller

Sl. No.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
7	Madhuvala Devi		Sadar Hospital Road, Uttari Hajipur, Ward No.-16, Khagaria	Aam Janta Party Rashtriya	Camera
8	Mukesh Sahani		At+Post-Afjala Biraul, Distt-Darbhanga	Vikassheel Insaan Party	Boat with Man & Sail
9	Moni Kumar		At- Mansi Araiya, Po- Mansi, Ps- Mansi, Dist.- Khagaria	Bahujan Mukti Party	Cot
10	Vinay Kumar Varun		At-Gauchhari Post-Gopalpur Distt-Khagaria	Janhit Kisan Party	Tractor Chalata Kisan
11	Sandeep Kumar Saket		At+Post+P.S-Mahishi, Distt-Saharsa	Shiv Sena	Bead Necklace
12	Sunil Yadav		Batraha Railway Colony, Ps- & Po-Saharsa, Dist.- Saharsa	Garib Janshakti Party	Gift Pack
<b>(iii) Other candidates</b>					
13	Kundan Kumar		At+Post-Baisa, P.S- Parbatta, Distt-Khagaria	Independent	Baby Walker

Sl. No.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
14	Nagendra Singh Tyagi		At- Kanhauli, Po- Fulwariya, Ps- Gogari, Dist.- Khagaria	Independent	Gas Cylinder
15	Parmanand Singh		At-Fatehpur, Post- Jamalpur, Distt- Khagaria	Independent	Bangles
16	Priadarshi Dinkar		At+Post-Dinachakala, P.S-Pasraha, Distt- Khagaria	Independent	Auto-Rickshaw
17	Bandan Kumar Singh		At+Po- Sarauja, Ps+Co- Simri Bakhtiyarpur, Dist.- Saharsa	Independent	Air Conditioner
18	Shiv Narayan Singh		At+Po- Bandh Chatarghat, Ps- Alauli, Dist.- Khagaria	Independent	Apple
19	Shobha Devi		At+Post-Bhadas Dakshini, P.S-Muffasil, Distt-Khagaria	Independent	Almirah

Sl. No.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
20	Sangram Kumar Sada		At+Post-Bachhauta, P.S-Morkahi, Distt-Khagaria	Independent	Basket Containing Fruits

Place :-Khagaria  
Date :-08-04-2019

Sd/-Illegible,  
Returning Officer,  
25 Khagaria Parliamentary Constituency.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 552-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>